

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2014/माघ 04, 1935

No. 191]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2014/MAGHA 04, 1935

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2014

का.आ. 239 (अ).—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इसके उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित परिक्षेत्र की भूमि में से कोयला अभिप्राप्त होने की संभावना है;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के ब्यौरे रेखांक संख्यांक एमसीएल/एसएएमबी/जीएम(सीपी एण्ड पी)/गोपाल प्रसाद (बलराम ओसी एक्सपेन्शन)/2013/01, तारीख 1 जुलाई, 2013 का निरीक्षण महाप्रबंधक (भूमि/राजस्व और पुनर्वास), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, जिला सम्बलपुर-768020 (ओड़िशा) के कार्यालय में या कलक्टर और जिला मैजिस्ट्रेट, जिला अंगुल (ओड़िशा) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट, कोलकाता के कार्यालय में किया जा सकता है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में कोयले का पूर्वक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है;

क्र.सं	ग्राम	थाना	ग्राम सं.	तहसील/जिला	भूमि का वर्गीकरण (एकड़ में)			योग	टिप्पणी
					काश्तकारी	वन	सरकारी गैर-वन		
1.	कलमचुई ब्लाक - ए	कोलियरी	15	तालचेर/ अंगुल	585.050	8.390	119.937	713.377	भाग
2.	कलमचुई ब्लाक - बी	कोलियरी	15	तालचेर/ अंगुल	51.230	14.360	41.523	107.113	भाग
3.	सोलडा ब्लाक - सी	कोलियरी	12	तालचेर/ अंगुल	1.340	-	-	1.340	भाग
4.	बीरबरपुर ब्लाक - डी	कोलियरी	04	तालचेर/ अंगुल	10.710	-	-	10.710	भाग
5.	बीरबरपुर ब्लाक - ई	कोलियरी	04	तालचेर/ अंगुल	8.720	-	-	8.720	भाग
कुल :					657.05	22.750	161.460	841.260	
कुल = 841.260 एकड़ या 340.453 हेक्टेयर (लगभग)									

उप-धारा 4(1) के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले प्लॉट संख्या :

ग्राम कलमचुई - ब्लाक - ए :

113 से 140, 226 से 344, 349 से 352, 396 से 640, 643, 647 से 649, 872 से 874, 877 से 1700, 1716 से 1975, 1976(भाग) , 1979 से 1982, 1995 से 1997, 2027 से 2045, 2047, 2055 से 2056, 2057(भाग), 2067(भाग) , 2068(भाग) , 2069 से 2665, 2972(भाग) , 2999 से 3010, 3044, 3072 से 3078, 3083 से 3088, 3091 से 4477, 4480, 5147, 5242 से 5243, 5245 से 5247, 5249 से 5259, 5280 से 5295, 5301 से 6287, 6494 से 6496, 6503 से 6505, 6507(भाग) , 6516 से 7086, 7090, 7092 से 7111, 7113 से 7156, 7159 से 7160, 7163 से 7164, 7213 से 7214, 2085/7838, 2085/7839, 2085/7840, 4112/7841, 4110/7842, 4107/7843, 4103/7844, 4102/7845, 4102/7846, 3970/7847, 4001/7848, 3627/7849, 3627/7850, 1532/7853, 4148/7855, 6195/7856, 1123/7860, 2218/7863, 2214/7864, 2214/7866, 6979/7867, 6521/7868, 6083/7870, 6045/7874, 3497/7875, 3880/7876, 3880/7877, 6591/7878, 2214/7879, 1834/7884, 1833/7885, 1833/7886, 6994/7887, 5704/7893, 2662/7894, 2662/7895, 2661/7896, 2661/7897, 2662/7898, 2664/7900, 6239/7901, 2138/7902, 6520/7903, 3942/7905, 3942/7906, 6003/7907, 3116/7908, 1083/7909, 6110/7910, 2565/7912, 2563/7913, 2563/7914, 2563/7915, 1233/7917, 2565/7918, 3716/7919, 3484/7921, 1369/7922, 3835/7923, 2237/7925, 3916/7926, 2471/7927, 4237/7929, 5588/7932, 1214/7937, 595/7938, 3786/7943, , 2471/7951, 2654/7952, 2471/7954, 5736/7956, 2545/7957, 2621/7959, 895/7961, 2545/7962, 2470/7963, 2545/7964, 6263/7965, 895/7966, 6128/7967, 6273/7968, 6273/7969, 6273/7970, 3938/7971, 6273/7972, 2545/7973, 2194/7976, 2195/7977, 3074/7978, 3074/7979, 2545/7980, 112/7981, 1388/7982, 1388/7983, 1388/7984, 2066/7985, 6251/7986, 2640/7990, 6617/7992, 6239/7993, 6239/7994, 6239/7995, 6240/7996, 3215/8002, 550/8005, 2078/8008, 1961/8013, 1961/8014, 2545/8016, 1003/8017, 2613/8018, 3415/8019, 2612/8020, 3414/8021, 6308/8023, 2545/8024, 2545/8025, 536/8029, 3458/8030, 3458/8031, 3443/8032, 3441/8033, 1075/8038, 1075/8039, 880/8041, 2078/8042, 2078/8043, 2617/8044, 2619/8045, 2085/8046, 2089/8047, 5961/8048, 909/8052, 6210/8053, 6211/8054, 3521/8055, 2420/8061, 6275/8062, 880/8066, 2493/8067, 2494/8068, 880/8069, 1721/8070, 2120/8071, 1066/8074, 1733/8075, 3461/8079, 3376/8081, 3887/8092, 4240/8096, 6488/8102, 7138/8106, 3561/8108, 3193/8112, 3191/8114, 4144/8115, 6023/8116, 4143/8117, 4238/8118, 6217/8120, 6032/8122, 6032/8123, 2098/8129, 931/8131, 6431/8133, 6605/8134, 1099/8135, 6623/8136, 3564/8137, 4264/8139, 2545/8140, 2504/8141, 6626/8142, 2497/8143, 6245/8144, 569/8145, 6244/8146, 1840/8148, 6861/8149, 436/8152, 4336/8153, 1150/8155, 3576/8158, 3932/8160, 2185/8161, 3300/8162, 6985/8163, 6972/8164, 1961/8165, 4005/8167, 3901/8170, 3901/8171, 2161/8172, 5569/8182, 6628/8185, 2249/8187, 2640/8190, 3846/8194, 1951/8195, 1951/8196, 1678/8197, 1960/8198, 3449/8201, 1721/8207, 7146/8219, 892/8221, 2665/8222, 2158/8224, 6622/8225, 2552/8238, 3328/8240, 3322/8241, 5872/8242, 6242/8246, 2583/8247, 4052/8251, 7146/8254, 3198/8255, 6599/8256, 1396/8265,

1561/8266, 1388/8267, 1138/8268, 1221/8269, 6616/8270, 3947/8271, 1102/8281, 1102/8282, 1102/8283, 6571/8284, 6571/8285, 6561/8286, 6571/8287, 3254/8315, 1144/8316, 1144/8317, 1080/8318, 6109/8319, 3700/8320, 2336/8321, 2336/8322, 1908/8323, 2223/8324, 6719/8326, 6719/8327, 4028/8328, 7042/8329, 5250/8358, 5781/8359, 2438/8365, 2438/8366, 2436/8368, 2436/8369, 2436/8370, 2436/8371, 2436/8372, 3454/8373, 3454/8374, 3450/8375, 3450/8376, 2393/8378, 2396/8379, 5441/8381, 3952/8382, 3618/8385, 6643/8386, 2085/8396, 2280/8397, 7145/8398, 2085/8399, 2098/8400, 1555/8415, 1555/8416, 1555/8417, 1555/8418, 1555/8419, 1555/8420, 1555/8421, 1558/8422, 1558/8423, 1558/8424, 1558/8425, 1558/8426, 945/8427, 1634/8428, 1634/8429, 945/8430, 2191/8431, 2191/8432, 2191/8433, 2191/8434, 2191/8435, 2191/8436, 2191/8437, 2191/8438, 2190/8439, 2190/8440, 2190/8441, 2190/8442, 2190/8443, 2190/8444, 2190/8445, 5993/8450, 5993/8451, 6091/8470, 6091/8471, 5327/8472, 6643/8473, 1340/8474, 1508/8496, 1508/8497, 1044/8498, 1044/8499, 4132/8502, 112/8503, 1496/8505, 344/8506, 6046/8507, 5332/8509, 5963/8511, 50/8523, 1110/8531, 3704/8532, 3704/8533, 3705/8534, 3705/8535, 3455/8536, 3455/8537, 3455/8538, 3455/8539, 2340/8541, 2340/8542, 2340/8543, 2340/8544, 2340/8545, 2340/8546, 2333/8547, 1930/8548, 1930/8549, 1929/8550, 1929/8551, 1929/8552, 1929/8553, 1929/8554, 1929/8555, 1929/8556, 1929/8557, 1141/8558, 1141/8559, 116/8560.

सीमा विवरण - ब्लॉक - “ए” :

क-ख-ग : रेखा बिंदु ‘क’ से प्रारंभ होती है जो ग्राम कलमचुई और गोपाल प्रसाद आर.एफ. का सन्धि बिन्दु है, उसके बाद रेखा पश्चिमी सीमा के प्लॉट सं. 8198, 1961, 8165, 8014 से होकर गुजरती हुई पश्चिमी और उत्तरी सीमा के प्लॉट सं. 8013, भागतः पश्चिमी सीमा के प्लॉट सं. 1963, दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी सीमा के प्लॉट सं. 1982, पश्चिमी और उत्तरी सीमा के प्लॉट सं. 1979, उत्तरी सीमा के प्लॉट सं. 1975 से गुजरती हुई रेखा प्लॉट सं. 1976 से होकर गुजरती हुई भागतः पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी भाग के प्लॉट सं. 2032 से होकर गुजरते हुई रेखा उत्तरी भाग के प्लॉट सं. 2027, 2047, 2045, 2055 से होते हुए रेखा प्लॉट सं. 2057 से होकर गुजरती हुई रेखा उत्तरी भाग के प्लॉट सं. 2248, 2234, 2231, 2221, 2217, 2201 से होकर गुजरती हुई रेखा प्लॉट सं. 2067, 2068 से होते हुए रेखा बिंदु ‘ख’ पर मिलती है जो कि ग्राम खुरींगा और कलमचुई की सम्मिलित सीमा है । उसके बाद रेखा ग्राम खुरींगा और कलमचुई की सम्मिलित सीमा से होकर गुजरती हुई रेखा बिंदु ‘ग’ पर आकर मिलती है जो कि खुरींगा, बीरबरपुर और कलमचुई तीनों का सन्धि बिंदु है ।

ग-घ-ङ.-च-छ : रेखा बिंदु ‘ग’ से प्रारंभ होती है और आगे गुजरती हुई ग्राम बीरबरपुर और कलमचुई की सांझी सीमा से होते हुए रेखा बिंदु ‘घ’ पर मिलती है जो कि बीरबरपुर, मझिका और कलमचुई तीनों का संधि बिंदु है उसके बाद रेखा ग्राम कलमचुई और मझिका की सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई रेखा बिंदु ‘ङ.’ पर मिलती है जो ग्राम खुरींगा

और कलमचुई की सीमा है । उसके बाद रेखा उत्तरी सीमा के प्लॉट सं. 2666, 2675, 2676, 8294, 2677, 2697, 2699, 2700, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707 और 2708 से होकर गुजरती हुई रेखा बिन्दु 'च' पर मिलती है उसके बाद रेखा पूर्वी सीमा के प्लॉट सं. 3074, 3071, 3078, 3077, 3083, 3087, 3088, 3091, 3099, 3100, 3103, 3104, 3106, 3119, 3120, 3121, 3044, 3123, 3125 से होकर गुजरती हुई रेखा उत्तरी सीमा के प्लॉट सं. 3007, 3008, उत्तरी और पूर्वी सीमा के प्लॉट सं. 3010, 3003, पूर्वी और दक्षिणी सीमा के प्लॉट सं. 3002, दक्षिणी सीमा के प्लॉट सं. 3001, 3000, 2999 से होकर गुजरती हुई रेखा पूर्वी सीमा के प्लॉट सं. 3134, 4434, 4477, 4480, 4472, 4471, 4462, 4461, 4460, 5242, 5246, 5247, 8358, 5250, 5249, 5259, 5258, 5257, 5256, 5280, 5281, 5282, 5284, 5295, 5294, 5302, 5301, 5305, 5306, 5147, 5308, 5310, 5311, 5312, 5321, 5322 उत्तरी और पूर्वी भाग के प्लॉट सं. 7156, 7159, 7160, 7163, 7164, 7113, 7114, 7111, 7110, 7213, 7214, 7093, 7092, 7090, 7086, 7077, 7076, 7075 गुजरती हुई रेखा बिन्दु 'छ' पर आकर मिलती है जो कि ग्राम कलमचुई और नटडा की सम्मिलित सीमा है ।

छ-ज-झ : रेखा ग्राम कलमचुई और नटडा की सम्मिलित सीमा से गुजरती हुई रेखा बिन्दु 'ज' पर आकर मिलती है जो ग्राम कलमचुई, नटडा और अमबपाल तीनों का संधि बिन्दु है उसके बाद रेखा ग्राम कलमचुई और अमबपाल की सीमा से होकर गुजरती हुई रेखा बिन्दु 'झ' पर मिलती है

झ-क : रेखा पश्चिमी सीमा के प्लॉट सं. 6518, 6516, 6517, 6505, 6504, 6503, 6496, 6495, 6494, 6282, 6286, 6287, 6262, 872, 8041, 897, 878, 877, 883, 895, 7961, 896, 897, 898, 899, 900, 649, 648, 647, 643, 640, 396, 400, 401, 402, 352, 349, 8506, 249, 248, 226, 227, 140, 137, 136, 116, 8503, 8223, 7981, 113, 1700, 1699, 1720, 1719, 1716, 1786, 1836, 1837 से गुजरती हुई रेखा प्रारंभिक बिन्दु 'क' पर मिलती है ।

ग्राम कलमचुई ब्लाक - 'बी' :

827 से 831, 832(भाग), 833 से 848, 850 से 858, 6292 से 6302, 6306 से 6480, 6482 से 6488, 6300/7861, 855/7862, 859/7942, 6424/7944, 6421/7945, 6473/7946, 6473/7947, 6473/7948, 6351/8028, 6451/8059, 8351/8060, 6451/8064, 6300/8082, 6488/8102, 6488/ 8132, 6297/8169, 844/8186, 6302/8188, 842/8469.

सीमा विवरण ब्लाक - 'बी' :

ज-ट-ठ : रेखा बिन्दु 'ज' से प्रारंभ होती है जो कि ग्राम कलमचुई और नुआमुही आर.एफ. की सीमा है उसके बाद रेखा पूर्वी सीमा के प्लॉट सं. 827, 828, 829, 832, 2829, 7942, 850, 851, 848, 845, 6292, 6302, 8023, 6306, 6347, 6351, 6348, 6488, 6483, 6482, 6480, 6479, 6475 से गुजरती हुई ग्राम अमबपाल और कलमचुई की सम्मिलित सीमा से होते हुई रेखा बिन्दु 'ट' पर मिलती है उसके बाद रेखा ग्राम कलमचुई और अमबपाल की सीमा से गुजरती हुई रेखा बिन्दु 'ठ' पर आकर मिलती है, जो कि

कलमचुई, अमबपाल और नुआमुही आर.एफ. तीनों का संधि बिंदु है उसके बाद रेखा ग्राम नुआमुही आर.एफ. और कलमचुई की सीमा से होकर गुजरती हुई रेखा प्रारंभिक बिंदु 'ठ' पर मिलती है ।

ग्राम सोलडा - ब्लाक - "सी" :

5092, 5096, 5097, 5099, 5100, 5115, 5099/7039, 5099/7040, 5100/7049, 5098/7135 ।

सीमा विवरण ब्लाक - "सी" :

ड-ढ-ण-त : रेखा बिंदु "ड" से प्रारंभ होकर उत्तरी सीमा के प्लॉट सं. **5115, 5052, 5096, 5097** से गुजरती हुई प्लॉट सं. **5098** और उत्तरी सीमा के प्लॉट सं. **5099** से होते हुए बिंदु 'ढ' पर मिलती है उसके बाद रेखा पूर्वी सीमा के प्लॉट सं. **5099** और **5100** से होकर गुजरती हुई बिंदु 'ण' पर मिलती है और होते हुए दक्षिणी सीमा के प्लॉट सं. **5100, 5098, 5096, 5092**, पूर्वी और उत्तरी सीमा के प्लॉट सं. **5115** से होकर गुजरती हुई बिंदु 'त' पर मिलती है उसके बाद रेखा पश्चिमी सीमा के प्लॉट सं. **5115** से होकर गुजरती हुई रेखा प्रारंभिक बिंदु 'ड' पर मिलती है ।

ग्राम बीरबरपुर - ब्लाक - "डी" :

43(भाग) से 47 तक, 49 से 55 तक, 162, 163, 168, 169, 171 से 178 तक ।

सीमा विवरण "ब्लाक - डी" :

थ-द-ध-न : रेखा बिंदु "थ" से प्रारंभ होकर उत्तरी सीमा के प्लॉट सं. **32, 36, 37, 61, 179, 180, 108, 107, 115, 132** से होकर गुजरती हुई बिंदु "द" पर मिलती है । उसके बाद पूर्वी सीमा के प्लॉट सं. **132** और **47** से होकर गुजरती हुई बिन्दु "ध" पर मिलती है और उसके बाद रेखा दक्षिणी और पश्चिमी सीमा के प्लॉट सं. **147** की पूर्वी सीमा के प्लॉट सं. **113** से बढ़ते हुए प्लॉट सं. **113, 119, 58, 59, 61** के भाग पश्चिमी और दक्षिणी सीमा के प्लॉट सं. **38, 36, 32** से होकर गुजरती हुई बिंदु "न" पर मिलती है और आगे होते हुए पश्चिमी सीमा के प्लॉट सं. **32** से होकर गुजरती हुई रेखा प्रारंभिक बिंदु "थ" पर मिलती है ।

ग्राम बीरबरपुर - ब्लाक - "ई" :

32, 36 से 38, 58(भाग), 59(भाग), 61, 107 से 109(भाग), 113(भाग), 115, 132, 147, 179, 180 ।

सीमा विवरण ब्लाक - "ई" :

प-फ-ब: रेखा बिंदु 'प' से प्रारंभ होती हुई पश्चिमी सीमा के प्लॉट सं. **177, 175, 173**, पश्चिमी और उत्तरी सीमा के प्लॉट सं. **171, 162** से होकर प्लॉट सं. **45, 44, 43**, उत्तरी सीमा के प्लॉट सं. **49, 55** से होकर गुजरती हुई बिंदु 'फ' पर मिलती है उसके बाद रेखा पश्चिमी सीमा के प्लॉट सं. **55**, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा के प्लॉट सं. **54**, दक्षिणी

सीमा के प्लॉट सं. 45, 163, 169, 178, 177 से होकर गुजरती हुई रेखा प्रारंभिक बिंदु 'प' पर मिलती है।

[फा. सं. 43015/09/2013-पीआरआईडब्ल्यू-I]

विवेक भारद्वाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd January, 2014

S.O. 239(E).—Whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto;

And Whereas, the plan bearing number MCL/SAMB/GM(CP&P)/Gopalprasad (Balram OC Expansion)/2013/01, dated the 1st July, 2013 containing the area of land described in the said Schedule may be inspected at the office of the General Manager, (L/R&R), Mahanadi Coalfields Limited, Jagruti Vihar; Burla, Sambalpur-768020 (Odisha) or at Office of the Collector and the District Magistrate, District Angul, (Odisha) or at Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Kolkata;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal in the land described in the aforesaid Schedule;

Any persons interested in the land described in the aforesaid Schedules may –

- (i) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 of the said Act; or
- (ii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the said Act in respect of prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act,

to the General Manager, (L/R&R), Mahanadi Coalfields Limited, Jagruti Vihar, Burla, Sambalpur-768020 (Odisha) within a period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Mahanadi Coalfields Limited
Gopalprasad (Balaram Expansion OCP)
Coal Mining Block
District-Angul, Odisha

[Plan bearing number MCL/SAMB/GM(CP&P)/Gopalprasad (Balaram OC Expansion)/2013/01, dated 1st July, 2013]

Sl.No.	Mouja / Village	Thana	Vill- age No.	Tahasil / District	Type of land (in acres)			Total	Re- marks
					Tenancy	Forest	Govern- ment Non- Forest		
1	Kalamchhuin Block-A	Colliery	15	Talcher / Angul	585.050	8.390	119.937	713.377	Part
2	Kalamchhuin Block-B	Colliery	15	Talcher / Angul	51.230	14.360	41.523	107.113	Part
3	Solada Block-C	Colliery	12	Talcher / Angul	1.340	-	-	1.340	Part
4	Birabarpur Block-D	Colliery	04	Talcher / Angul	10.710	-	-	10.710	Part

5	Birabarpur Block-E	Colliery	04	Talcher / Angul	8.720	-	-	8.720	Part
Total					657.05	22.750	161.460	841.260	
Total = 841.260 acres (approximately) or 340.453 hectares (approximately)									

Plots to be notified under section 4(1) :

Village Kalamachhuin – Block –A :

113 to 140, 226 to 344, 349 to 352, 396 to 640, 643, 647 to 649, 872 to 874, 877 to 1700, 1716 to 1975, 1976(P), 1979 to 1982, 1995 to 1997, 2027 to 2045, 2047, 2055 to 2056, 2057(P), 2067(P), 2068(P), 2069 to 2665, 2972(P), 2999 to 3010, 3044, 3072 to 3078, 3083 to 3088, 3091 to 4477, 4480, 5147, 5242 to 5243, 5245 to 5247, 5249 to 5259, 5280 to 5295, 5301 to 6287, 6494 to 6496, 6503 to 6505, 6507(P), 6516 to 7086, 7090, 7092 to 7111, 7113 to 7156, 7159 to 7160, 7163 to 7164, 7213 to 7214, 2085/7838, 2085/7839, 2085/7840, 4112/7841, 4110/7842, 4107/7843, 4103/7844, 4102/7845, 4102/7846, 3970/7847, 4001/7848, 3627/7849, 3627/7850, 1532/7853, 4148/7855, 6195/7856, 1123/7860, 2218/7863, 2214/7864, 2214/7866, 6979/7867, 6521/7868, 6083/7870, 6045/7874, 3497/7875, 3880/7876, 3880/7877, 6591/7878, 2214/7879, 1834/7884, 1833/7885, 1833/7886, 6994/7887, 5704/7893, 2662/7894, 2662/7895, 2661/7896, 2661/7897, 2662/7898, 2664/7900, 6239/7901, 2138/7902, 6520/7903, 3942/7905, 3942/7906, 6003/7907, 3116/7908, 1083/7909, 6110/7910, 2565/7912, 2563/7913, 2563/7914, 2563/7915, 1233/7917, 2565/7918, 3716/7919, 3484/7921, 1369/7922, 3835/7923, 2237/7925, 3916/7926, 2471/7927, 4237/7929, 5588/7932, 1214/7937, 595/7938, 3786/7943, 2471/7951, 2654/7952, 2471/7954, 5736/7956, 2545/7957, 2621/7959, 895/7961, 2545/7962, 2470/7963, 2545/7964, 6263/7965, 895/7966, 6128/7967, 6273/7968, 6273/7969, 6273/7970, 3938/7971, 6273/7972, 2545/7973, 2194/7976, 2195/7977, 3074/7978, 3074/7979, 2545/7980, 112/7981, 1388/7982, 1388/7983, 1388/7984, 2066/7985, 6251/7986, 2640/7990, 6617/7992, 6239/7993, 6239/7994, 6239/7995, 6240/7996, 3215/8002, 550/8005, 2078/8008, 1961/8013, 1961/8014, 2545/8016, 1003/8017, 2613/8018, 3415/8019, 2612/8020, 3414/8021, 6308/8023, 2545/8024, 2545/8025, 536/8029, 3458/8030, 3458/8031, 3443/8032, 3441/8033, 1075/8038, 1075/8039, 880/8041, 2078/8042, 2078/8043, 2617/8044, 2619/8045, 2085/8046, 2089/8047, 5961/8048, 909/8052, 6210/8053, 6211/8054, 3521/8055, 2420/8061, 6275/8062, 880/8066, 2493/8067, 2494/8068, 880/8069, 1721/8070, 2120/8071, 1066/8074, 1733/8075, 3461/8079, 3376/8081, 3887/8092, 4240/8096, 6488/8102, 7138/8106, 3561/8108, 3193/8112, 3191/8114, 4144/8115, 6023/8116, 4143/8117, 4238/8118, 6217/8120, 6032/8122, 6032/8123, 2098/8129, 931/8131, 6431/8133, 6605/8134, 1099/8135, 6623/8136, 3564/8137, 4264/8139, 2545/8140, 2504/8141, 6626/8142, 2497/8143, 6245/8144, 569/8145, 6244/8146, 1840/8148, 6861/8149, 436/8152, 4336/8153, 1150/8155, 3576/8158, 3932/8160, 2185/8161, 3300/8162, 6985/8163, 6972/8164, 1961/8165, 4005/8167, 3901/8170, 3901/8171, 2161/8172, 5569/8182, 6628/8185, 2249/8187, 2640/8190, 3846/8194, 1951/8195, 1951/8196, 1678/8197, 1960/8198, 3449/8201, 1721/8207, 7146/8219, 892/8221, 2665/8222, 2158/8224, 6622/8225, 2552/8238, 3328/8240, 3322/8241, 5872/8242, 6242/8246, 2583/8247, 4052/8251, 7146/8254, 3198/8255, 6599/8256, 1396/8265, 1561/8266, 1388/8267, 1138/8268, 1221/8269, 6616/8270, 3947/8271, 1102/8281, 1102/8282, 1102/8283, 6571/8284, 6571/8285, 6561/8286, 6571/8287, 3254/8315, 1144/8316, 1144/8317, 1080/8318, 6109/8319, 3700/8320, 2336/8321, 2336/8322, 1908/8323, 2223/8324, 6719/8326, 6719/8327, 4028/8328, 7042/8329, 5250/8358, 5781/8359, 2438/8365, 2438/8366, 2436/8368, 2436/8369, 2436/8370, 2436/8371, 2436/8372, 3454/8373, 3454/8374, 3450/8375, 3450/8376, 2393/8378, 2396/8379, 5441/8381, 3952/8382, 3618/ 8385, 6643/8386, 2085/8396, 2280/8397, 7145/8398, 2085/8399, 2098/8400, 1555/8415, 1555/8416, 1555/8417, 1555/8418, 1555/8419, 1555/8420, 1555/8421, 1558/8422, 1558/8423, 1558/8424, 1558/8425, 1558/8426, 945/8427, 1634/8428, 1634/8429, 945/8430, 2191/8431, 2191/8432, 2191/8433, 2191/8434, 2191/8435, 2191/8436, 2191/8437, 2191/8438, 2190/8439, 2190/8440, 2190/8441, 2190/8442, 2190/8443, 2190/8444, 2190/8445, 5993/8450, 5993/8451, 6091/8470, 6091/8471, 5327/8472, 6643/8473, 1340/8474, 1508/8496, 1508/8497, 1044/8498, 1044/8499, 4132/8502, 112/8503, 1496/8505, 344/8506,

6046/8507, 5332/8509, 5963/8511, 50/8523, 1110/8531, 3704/8532, 3704/8533, 3705/8534, 3705/8535, 3455/8536, 3455/8537, 3455/8538, 3455/8539, 2340/8541, 2340/8542, 2340/8543, 2340/8544, 2340/8545, 2340/8546, 2333/8547, 1930/8548, 1930/8549, 1929/8550, 1929/8551, 1929/8552, 1929/8553, 1929/8554, 1929/8555, 1929/8556, 1929/8557, 1141/8558, 1141/8559, 116/8560.

Boundary Description - BLOCK – “A”

A-B-C : Line starts at point “A” which is the bi-junction point of village Kalamachhuin & Gopal Prasad R.F. Then passes over the western boundary of Plot No. 8198, 1961, 8165, 8014 western and northern boundary of Plot No. 8013 part western boundary of Plot No.1963, southern, western and northern boundary of Plot No. 1982 western and northern boundary of 1979, northern boundary of Plot No. 1975 passes through Plot No. 1976 part western, northern, and part eastern of Plot No. 2032. Northern part of Plot No. 2027, 2047, 2045, 2055 passes through Plot No. 2057 northern part of Plot No. 2248, 2234, 2231, 2221, 2217, 2201. Passes through Plot No. 2067, 2068 meets at point “B” which is the bi-junction point of village Khuringa and Kalamachhuin then passes over the part common village boundary of Village Khuringa and Kalamachhuin meets at point “C” which is the tri-junction point of village Khuringa, Birabarpur and Kalamachhuin.

C-D-E-F-G : Line passes over the common village boundary of Birabarpur and Kalamachhuin meets at point “D” which is the tri-junction point of village Birabarpur, Majhika and Kalamachhuin, then passes the part common village boundary of village Kalamachhuin and Majhika meets at point “E” which is the bi-junction point of village Majhika and Kalamachhuin, then passes over the northern boundary of Plot No. 2666, 2675, 2676, 8294, 2677, 2697, 2699, 2700, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, and 2708 meets at point “F” then eastern boundary of Plot No. 3074, 3071, 3078, 3077, 3083, 3087, 3088, 3091, 3099, 3100, 3103, 3104, 3106, 3119, 3120, 3121, 3044, 3123, 3125 part northern boundary of Plot No. 3007, northern boundary of 3008, Northern and eastern boundary of 3010, 3003 eastern and southern boundary of plot No. 3002 southern boundary of 3001, 3000, 2999, eastern boundary of Plot No. 3134, 4434, 4477, 4480, 4472, 4471, 4462, 4461, 4460, 5242, 5246, 5247, 8358, 5250, 5249, 5259, 5258, 5257, 5256, 5280, 5281, 5282, 5284, 5295, 5294, 5302, 5301, 5305, 5306, 5147, 5308, 5310, 5311, 5312, 5321, 5322 northern and eastern part of plot No. 7156, 7159, 7160, 7163, 7164, 7113, 7114, 7111, 7110, 7213, 7214, 7093, 7092, 7090, 7086, 7077, 7076, 7075 meets at part common village boundary of village Kalamachhuin and Natada meets at point “G”.

G-H-I : Then passes over the part common boundary of village Kalamachhuin and Natada meets at point “H” which is the tri-junction point of village Kalamachhuin, Natada and Ambapal. Then passes over the part common boundary of village Kalamachhuin and Ambapal meets at point “I”.

I-A- Then passes over the western boundary of Plot No. 6518, 6516, 6517, 6505, 6504, 6503, 6496, 6495, 6494, 6282, 6286, 6287, 6282, 872, 8041, 879, 878, 877, 883, 895, 7961, 896, 897, 898, 899, 900, 649, 648, 647, 643, 640, 396, 400, 401, 402, 352, 349, 8506, 249, 248, 226, 227, 140, 137, 136, 116, 8503, 8223, 7981, 113, 1700, 1699, 1720, 1719, 1716, 1786, 1836, 1837, meets at starting point “A” .

Village Kalamchhuin - Block B :

827 to 831, 832(P), 833 to 848, 850 to 858, 6292 to 6302, 6306 to 6480, 6482 to 6488, 6300/7861, 855/7862, 859/7942, 6424/7944, 6421/7945, 6473/7946, 6473/7947, 6473/7948, 6351/8028, 6451/8059, 8351/8060, 6451/8064, 6300/8082, 6488/8102, 6488/ 8132, 6297/8169, 844/8186, 6302/8188, 842/8469.

Boundary Description of BLOCK – “B” :

J- K-L : Line starts at point “J” which is the bi-junction point of village Kalamachhuin and Nuamuhin R.F. Then passes over the eastern boundary of Plot No. 827, 828, 829, 832, 2829, 7942, 850, 851, 848, 845, 6292, 6302, 8023, 6306, 6347, 6351, 6348, 6488, 6483, 6482, 6480, 6479, 6475 meets at part common village boundary of Ambapal & Kalamachhuin meets at point “K”. Then passes over common village boundary of village Kalamachhuin & Ambapal meets at point “L” which is the tri-junction point of village Kalamachhuin, Ambapal & Nuamuhin R.F. Then passes over the part village boundary of village Nuamuhin R.F. & Kalamachhuin meets at the starting point “J”.

Village Solada – Block – “C” :

5092, 5096, 5097, 5099, 5100, 5115, 5099/7039, 5099/7040, 5100/7049, 5098/7135.

Boundary description of - BLOCK – “C” :

M–N–O–P : Line starts at point “M” then passes over the northern boundary of Plot No.5115, 5052, 5096, 5097, then passes through Plot No. 5098 and northern boundary of 5099 meets at point “N” then passes over the eastern boundary of Plot No.5099 & 5100 meets at point “O”, then passes over the southern boundary of Plot No.5100, 5098, 5096, 5092, then part eastern & northern boundary of Plot No.5115 meets at point “P”, then passes over the western boundary of Plot No.5115 meets at starting point “M”.

Village Birabarpur – Block- D:

43(P) to 47, 49 to 55, 162, 163, 168, 169, 171 to 178.

Boundary description of BLOCK – “D”:

Q–R–S–T : Line starts at point “Q” then passes over the northern boundary of Plot No.32, 36, 37, 61, 179, 180, 108, 107, 115, 132, meets at point “R”. Then passes the eastern boundary of Plot No.132 & 47 meets at point “S”. Then passes the southern & western boundary of Plot No.147 part eastern boundary of Plot No.113, then passes through Plot No.113, 119, 58, 59, 61 part western & southern of plot No.38, 36, 32, meets at point “T”. Then passes over the western boundary of Plot No.32 meets at stating point “Q”.

Village Birabarpur – Block –E :

32, 36 to 38, 58(P), 59(P), 61, 107 to 109(P), 113(P), 115, 132, 147, 179, 180.

Boundary description of BLOCK – “E” :

U–V–W : Line starts at point “U” then passes over the western boundary of Plot No. 177, 175, 173, then western & northern boundary of Plot No.171, 162, then passes through Plot No.45, 44, 43, then northern boundary of Plot No.49, 55, meets at point “V”. Then passes eastern boundary of Plot No.55, eastern & southern boundary of Plot No.54, Southern boundary of Plot No.45, 163, 169, 178, 177 meets at starting point “U”.

[F. No. 43015/09/2013-PRIW-I]

Sd/-
VIVEK BHARADWAJ, Jt. Secy.